



## राज्य की वित्तीय चुनौतियों के समाधान में वित्त आयोग की भूमिका

यह एडिटरियल 01/01/2024 को 'हद्वि बज़िनेसलाइन' में प्रकाशित [“Finance panel should curb populism”](#) लेख पर आधारित है। इसमें तर्क दिया गया है कि भारत के 16वें वित्त आयोग को अपने हस्तांतरण फॉर्मूले में राजकोषीय दक्षता एवं अनुशासन को अधिक महत्त्व देना चाहिये और राज्य सरकारों की लोकलुभावन प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना चाहिये।

### प्रलमिस के लिये:

[16वाँ वित्त आयोग \(FC\)](#), [पुरवर्ती पेंशन योजना \(OPS\)](#), [नई पेंशन योजना \(NPS\)](#), [सकल राज्य घरेलू उत्पाद \(GSDP\)](#), [भ्रष्टाचार बोध सूचकांक](#), [15वाँ वित्त आयोग](#), [राजकोषीय घाटा](#)।

### मेन्स के लिये:

वित्त आयोग, भारत में लोकलुभावनवाद पर अंकुश लगाने की आवश्यकता, लोकलुभावनवाद पर अंकुश लगाने में वित्त आयोग की भूमिका।

राज्यों को केंद्रीय करों के हस्तांतरण और अनुदानों के संबंध में अनुशासन करने के लिये [16वें वित्त आयोग \(Finance Commission- FC\)](#) का गठन किया जा रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हाल ही में प्रकाशित [“राज्य वित्त: बजट का एक अध्ययन” \(State Finances: A study of Budgets\)](#) शीर्षक रिपोर्ट ने उन मुद्दों को रेखांकित किया है जिन पर वित्त आयोग से निश्चित रूप से ध्यान देने के लिये कहा जाएगा, जैसे कि राज्यों की वित्तीय स्थिति पर विचार किये बिना राज्यों का [पुरवर्ती पेंशन योजना \(Old Pension Scheme- OPS\)](#) की ओर वापस लौटना या चुनावों के समय वादा की गई गारंटी या फ्रीबीज की पूर्ति के लिये असंवहनीय सब्सिडी प्रदान करना।

### वित्त आयोग का गठन:

- वित्त आयोग एक **संवैधानिक निकाय** है जिसका गठन भारतीय संविधान के [अनुच्छेद 280](#) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
- इसमें **एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य** शामिल होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- आयोग केंद्र और राज्यों के बीच **कर राजस्व के वितरण के साथ-साथ राज्यों की सहायता अनुदान** से संबंधित विभिन्न मामलों पर राष्ट्रपति को अनुशासन प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी है।
- आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा **प्रत्येक पाँच वर्ष पर या उससे पूर्वतर समय पर**, जैसा वह आवश्यक समझे, किया जाता है।

### भारत में लोकलुभावनवाद (Populism) पर अंकुश लगाने की आवश्यकता क्यों है?

- राजकोषीय असंतुलन:**
  - बढ़ता ऋण:** वर्ष 2014 से 2022 के बीच भारतीय राज्यों का औसत ऋण-जीडीपी अनुपात (**debt-to-GDP ratio**) **22.2% से बढ़कर 34.5% हो गया**, जहाँ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे लोकलुभावनवादी राज्यों में इसके स्तर में तेज़ वृद्धि देखी गई।
  - उच्च घाटा:** राज्यों का संयुक्त **राजकोषीय घाटा वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद के 4.1%** तक पहुँच गया, जो मुफ्त बजिली, ऋण माफी और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर लोकलुभावन व्यय से प्रेरित रहा।
  - राजस्व में कमी:** कर राजस्व का लोकलुभावन खर्चों के साथ तालमेल नहीं रह सका जहाँ कई राज्य अंतराल को भरने के लिये **केंद्र सरकार के 'बेलआउट'** या उससे उधार लेने पर **अत्यधिक निर्भर हुए**।
- आर्थिक विकृतियाँ:**
  - निवेश में गिरावट:** भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह में वर्ष 2022 में 10% की गिरावट आई, जिसे कुछ विश्लेषकों द्वारा मूल्य न्यतिरण एवं संरक्षणवादी उपायों जैसी लोकलुभावन नीतियों द्वारा उत्पन्न अनिश्चिता का परिणाम बताया गया।
  - रोज़गार वृद्धि में गतहीनता:** सरकारी व्यय में वृद्धि के बावजूद भारत की बेरोज़गारी दर वर्ष 2023 में 7% से ऊपर रही, जो दर्शाता है कि लोकलुभावन नीतियों से कोई उल्लेखनीय रोज़गार सृजन नहीं हुआ।
  - बाज़ार की अक्षमता:** कृषि जैसे क्षेत्रों में मूल्य न्यतिरण उत्पादन को हतोत्साहित करता है और कमी उत्पन्न करता है, जो फरि आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित करता है और उपभोक्ता कल्याण को प्रभावित करता है।
- शासन का क्षरण:**

- भ्रष्टाचार में वृद्धि: 'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' के भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (Corruption Perception Index) में भारत की रैंकिंग वर्ष 2014 में 80 से गरिकर वर्ष 2022 में 85 हो गई, जो संस्थागत नयितरण एवं संतुलन को कमजोर करने वाले लोकलुभावनवादी शब्दाडंबर की वृद्धिसे संगत है।
- घटती पारदर्शिता: पबलिक अफेयर्स इंडेक्स—जो सरकारी नरिणयन में पारदर्शिता की माप करता है, ने प्रबल लोकलुभावनवादी नेताओं वाले कई राज्यों में पारदर्शिता में गरिवट का रुझान दखिया है।

## राज्यों द्वारा अपनाई गई वे कौन-सी कुछ प्रमुख लोकलुभावन नीतियाँ हैं जिन्होंने इससे जुड़े बहस को बढ़ा दिया है?

- पुरानी पेंशन योजना (OPS) की ओर वापसी:
  - कुछ राज्य वर्ष 2004 में शुरू की गई **नई पेंशन योजना (NPS)** को त्यागकर OPS की ओर वापस लौट गए हैं।
    - OPS में कर्मचारियों के पेंशन के प्रति अनश्चितिकालीन देनदारियाँ होती हैं, जो NPS के वपिरीत हैं जहाँ देनदारी कर्मचारियों के सेवा काल तक सीमति होती है।
  - RBI के एक आंतरिक अध्ययन से पता चलता है कि **OPS के परणामस्वरूप NPS की तुलना में 4.5 गुना अधिक** देनदारी होगी, जिससे वर्ष 2060 तक सकल घरेलू उत्पाद पर 0.9% का अतरिकित बोझ पड़ेगा।
    - इस कदम को प्रतगामी, विकास के लिये बाधाकारी और भावी पीढ़ियों के हितों के लिये समझौताकारी माना जा रहा है।
- राज्यों का बढ़ता राजकोषीय घाटा:
  - कई राज्यों में मुफ्त बजिली जैसे लोकलुभावन उपायों के लिये प्रदत्त सब्सिडी के कारण घाटे की स्थिति बनी है।
  - सब्सिडी पर राज्यों का औसत व्यय उनके **सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 0.87%** है, जबकि कुछ राज्य इससे कहीं अधिक व्यय कर रहे हैं (उदाहरण के लिये पंजाब 2.35%, राजस्थान 1.92%)।

## वित्त आयोग लोकलुभावनवाद पर अंकुश लगाने में कैसे मदद कर सकता है?

- प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन: **15वें वित्त आयोग** द्वारा मापन-योग्य प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन का प्रस्ताव सही दशा में उठाया गया कदम है। वित्त आयोग बेहतर स्वास्थ्य, शक्ति एवं कृषि संकेतकों जैसे वशिष्ट परणामों के साथ राज्यों के वित्तीय हस्तांतरण को जोड़कर उत्तरदायी शासन को प्रोत्साहित करता है और ऐसे लोकलुभावनवादी उपायों को हतोत्साहित करता है जो संभव है कि दीर्घकालिक विकास में अधिक योगदान नहीं कर सकें।
  - **संवधान के अनुच्छेद 280(3)** के तहत, राज्यों को करों के हस्तांतरण और सहायता अनुदान की अनुशंसा करने के अलावा, केंद्र द्वारा वित्त आयोग को "सुदृढ़ वित्त के हित में" किसी अन्य मुद्दे पर वचिार करने के लिये कहा जा सकता है।
- लोकलुभावन उपायों के लिये उद्देश्य मानदंड: जबकि योजनाओं का वर्गीकरण लोकलुभावनवादी एवं गैर-लोकलुभावनवादी के रूप में करना चुनौतीपूर्ण सदिध हो सकता है, वित्त आयोग उद्देश्य मानदंड वकिसति करने के संबंध में कार्य कर सकता है जो वभिन्न राज्यों की वविधि वकिसात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखता हो।
  - इसके लिये लोकलुभावनवादी व्यय पर एक आम सहमतिकाे नरिमाण के लिये केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग की आवश्यकता होगी।
- राजकोषीय दक्षता संबंधी मापदंड: वित्त आयोग हस्तांतरण के लिये अपने मानदंडों में **राजकोषीय दक्षता को अधिक महत्त्व** दे सकता है। आयोग राजकोषीय समेकन पर बल देकर और राज्यों के टैक्स एफर्ट (tax effort) को मापकर उत्तरदायी वित्तीय प्रबंधन को प्रोत्साहित कर सकता है। यह अपनी राजकोषीय क्षमता पर वचिार कयि बना लोकलुभावनवाद का सहारा लेने वाले राज्यों के लिये एक नवारिक के रूप में कार्य कर सकता है।
  - 15वें वित्त आयोग ने टैक्स एफर्ट (Own Tax to GSDP ratio) द्वारा मापी गई राजकोषीय दक्षता को केवल 2.5% महत्त्व दिया था। 16वें वित्त आयोग द्वारा इसकी समीक्षा की जा सकती है।
- सार्वजनिक जागरूकता: वित्त आयोग लोकलुभावनवादी उपायों के परणामों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने में भूमिका नभि सकता है। वित्त आयोग मुफ्त उपहार या **फ्रीबीज** से वित्त पर पड़ने वाले तनाव और आर्थिक विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव को उजागर करने के माध्यम से सूचना-संपन्न सार्वजनिक चर्चा में योगदान दे सकता है जहाँ राजनीतिक दलों पर उत्तरदायी राजकोषीय नीतियों को अपनाने का एक दबाव बना रहेगा।
- भवषिय के नहितिारथों पर तनाव: वित्त आयोग लोकलुभावन उपायों के दीर्घकालिक परणामों की ओर ध्यान आकर्षित कर सकता है, जैसे कि बढ़ते राज्य ऋण और भवषिय की पीढ़ियों की ओर स्थानांतरित हो रहा बोझ।
  - इसमें ऐसे उपायों की सफ़िरशि करना शामिल हो सकता है जो राज्यों को उनकी क्षमता से अधिक उधार लेने से रोकते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वित्तीय नरिणय सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित हों।
- आम सहमतिकाे बनाना: जबकि लोकलुभावन व्यय को नयितरित करने के संबंध में केंद्र और राज्यों के बीच आम सहमतिकाे नरिमाण करना चुनौतीपूर्ण सदिध हो सकता है, वित्त आयोग आपसी संवाद को बढ़ावा देने में मध्यस्थ एवं सहायक के रूप में कार्य कर सकता है।
  - वित्त आयोग सहकारी संघवाद (cooperative federalism) को बढ़ावा देकर और राजकोषीय मामलों पर खुली चर्चा को प्रोत्साहित कर वित्तीय प्रशासन के लिये अधिक सहयोगात्मक दृष्टिकोण में योगदान दे सकता है।
- नयिमति समीक्षा और अनुशंसाएँ: वित्त आयोग राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य की नयिमति रूप से समीक्षा कर सकता है और उभरते आर्थिक परदृश्य के आधार पर आवधिक अनुशंसाएँ कर सकता है। यह उभरती चुनौतियों (जैसे **कोविड-19** महामारी जैसे बाह्य कारकों के प्रभाव) से नपिटने में लचीलेपन की अनुमतिकाे देगा।

## नषिकरष:

किसी राज्य का लोकलुभावनवाद उसके अपने करदाताओं द्वारा वित्तपोषित होना चाहिये, दूसरों द्वारा नहीं। RBI का सुझाव है कि राजकोषीय हस्तांतरण को

सुधारों और राजकोषीय उत्तरदायित्व से जोड़ा जाना चाहिये। यदि कोई राज्य लोकलुभावनवाद की राह चुनता है और बिना वित्तपोषण के उधार लेता है तो उसे इसके परिणाम भी भुगतने चाहिये।

**अभ्यास प्रश्न:** भारत में लोकलुभावनवाद पर अंकुश लगाने में वित्त आयोग की भूमिका की चर्चा कीजिये।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्षों के प्रश्न

**??????:**

**प्रश्न.** सरकार द्वारा की जाने वाली नमिनलखिति कार्रवाइयों पर वचिार कीजयि: (2010)

1. कर की दरों में कटौती
2. सरकारी खर्च में वृद्धि
3. आर्थिक मंदी के संदर्भ में सब्सिडी को समाप्त करना,

उपर्युक्त कार्यों में से कसि/कनिहें "राजकोषीय प्रोत्साहन" पैकेज का हसिसा माना जा सकता है?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

**??????:**

**प्रश्न:** कसि तरह से मूल्य सब्सिडी को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) में बदलने से भारत में सब्सिडी का परदृश्य बदल सकता है? चर्चा कीजिये। (2015, मुख्य परीक्षा)

PDF Referenece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/finance-commission-s-role-in-tackling-state-fiscal-challenges>